

# कुन्दकुन्द शतक

(आचार्य कुन्दकुन्द के पंच परमागमों में से  
चुनी हुई १०१ गाथाओं का संकलन)

सम्पादन, संकलन, पद्यानुवाद एवं सरलार्थ लेखन  
**डॉ. हुकमचन्द भारिल्ल**  
शास्त्री, न्यायतीर्थ, एम.ए., पीएच.डी.

प्रकाशक

**पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट**  
ए-४, बापूनगर, जयपुर - ३०२०१५



## कुन्दकुन्द शतक

( १ )

एस सुरासुरमणुसिंदवंदिदं धोदघाइकम्मलं ।  
पणमामि वद्धमाणं तित्थं धम्मस्स कत्तारं ॥

सुर-असुर-इन्द्र-नरेन्द्र-वंदित कर्ममल निर्मलकरन ।  
वृषतीर्थ के करतार श्री वर्द्धमान जिन शत-शत नम ॥  
मैं सुरेन्द्रों, असुरेन्द्रों और नरेन्द्रों से वंदित, घातियाकर्मी रूपी मल को  
धो डालनेवाले एवं धर्मतीर्थ के कर्ता तीर्थकर भगवान वर्द्धमान को प्रणाम  
करता हूँ ।

( २ )

अरूहा सिद्धायरिया उज्ज्ञाया साहु पंच परमेठी ।  
ते वि हु चिद्गुहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥  
अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठि पण ।  
सब आतमा की अवस्थाएँ आतमा ही है शरण ॥  
अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु - ये पंच परमेष्ठी भगवान  
आत्मा की ही अवस्थाएँ हैं; इसलिए मेरे लिए तो एक भगवान आत्मा ही  
शरण है ।

---

१. प्रवचनसार, गाथा १

२. अष्टपाहुड : मोक्षपाहुड, गाथा १०४

( ३ )

सम्मतं सण्णाणं सच्चारितं हि सत्तवं चेव ।  
चउरो चिद्गुदि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥

सम्यक् सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक् आचरण ।  
सब आत्मा की अवस्थाएँ आत्मा ही है शरण ॥

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप - ये चार आराधनाएँ भी आत्मा की ही अवस्थाएँ हैं; इसलिए मेरे लिए तो एक आत्मा ही शरण है। तात्पर्य यह है कि निश्चय से विचार करें तो एकमात्र निज भगवान आत्मा ही शरण है, क्योंकि आत्मा के आश्रय से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र की प्राप्ति होती है।

( ४ )

णिगंथो णीरागो णिस्सल्लो सयलदोसणिम्मुको ।  
णिक्कामो णिक्कोहो णिम्माणो णिम्मदो अप्पा ॥

निर्गन्थ है नीराग है निःशल्य है निर्दोष है ।  
निर्मान-मद यह आत्मा निष्काम है निष्क्रोध है ॥

भगवान आत्मा परिग्रह से रहित है, राग से रहित है, माया, मिथ्यात्व और निदान शल्यों से रहित है, सर्व दोषों से मुक्त है, काम-क्रोध से रहित है और मद-मान से भी रहित है।

( ५ )

णिदंडो णिदंदो णिम्ममो णिक्कलो णिरालंबो ।  
णीरागो णिदोसो णिम्मूढो णिब्भयो अप्पा ॥

निर्दण्ड है निर्द्वन्द्व है यह निरालम्बी आत्मा ।  
निर्देह है निर्मूढ है निर्भयी निर्मम आत्मा ॥

भगवान आत्मा हिंसादि पापों रूप दण्ड से रहित है, मानसिक द्वन्द्वों से रहित है, ममत्वपरिणाम से रहित है, शरीर से रहित है, आलम्बन से रहित है, राग से रहित है, दोषों से रहित है, मूढ़ता और भय से भी रहित है।

३. अष्टपाहुड़ : मोक्षपाहुड़, गाथा १०५

४. नियमसार, गाथा ४४

५. नियमसार, गाथा ४३

( ६ )

अहमेक्को खलु सुद्धो दंसणाणमङ्गओ सदारूपी ।  
ए वि अथि मज्ज किंचि वि अण्ण परमाणुमेत्तं पि ॥

मैं एक दर्शन ज्ञान मय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं ।  
ये अन्य सब परद्रव्य किंचित् मात्र भी मेरे नहीं ॥

मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ एवं सदा ही ज्ञान-दर्शनमय अरूपी तत्त्व हूँ। मुझसे भिन्न अन्य समस्त द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरे नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि मैं समस्त परद्रव्यों से भिन्न, ज्ञान-दर्शनस्वरूपी, अरूपी, एक, परमशुद्ध तत्त्व हूँ। अन्य परद्रव्यों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

( ७ )

अरसमरूपमगंधं अव्वत्तं चेतनागुणमसद्दं ।  
जाण अलिंगग्रहणं जीवमणिदिट्ठसंठाणं ॥

चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है ।  
जानो अलिंगग्रहण इसे यह अनिर्दिष्ट अशब्द है ॥

भगवान आत्मा में न रस है, न रूप है, न गंध है और न शब्द है; अतः यह आत्मा अव्यक्त है, इन्द्रियग्राह्य नहीं है। हे भव्यो ! किसी भी लिंग (चिह्न) से ग्रहण न होने वाले, चेतना गुण वाले एवं अनिर्दिष्ट (न कहे जा सकने वाले) संस्थान (आकार) वाले इस भगवान आत्मा को जानो।

( ८ )

कह सो घिप्पदि अप्पा पण्णाए सो दु घिप्पदे अप्पा ।  
जह पण्णाइ विभत्तो तह पण्णाएव घेत्तव्वो ॥

जिस भाँति प्रज्ञाछैनी से पर से विभक्त किया इसे ।  
उस भाँति प्रज्ञाछैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे ॥

प्रश्न - भगवान आत्मा को किस प्रकार ग्रहण किया जाय?  
उत्तर - भगवान आत्मा का ग्रहण बुद्धिरूपी छैनी से किया जाना चाहिए। जिस प्रकार बुद्धिरूपी छैनी से भगवान आत्मा को परपदार्थों से भिन्न किया है, उसी प्रकार बुद्धिरूपी छैनी से ही भगवान आत्मा को ग्रहण करना चाहिए।

६. समयसार, गाथा ३८

८. समयसार, गाथा २९६

७. समयसार, गाथा ४९

( ९ )

सुद्धं तु वियांतो सुद्धं चेवप्पयं लहदि जीवो ।  
जाणंतो दु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहदि ॥  
जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो ।  
जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो ॥

शुद्धात्मा को जानता हुआ अर्थात् शुद्धात्मा का अनुभव करता हुआ जीव शुद्धात्मा को प्राप्त करता है और अशुद्ध आत्मा को जानता हुआ - अनुभवता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है । तात्पर्य यह है कि अपने आत्मा के शुद्ध स्वभाव में अपनापन स्थापित करनेवाला शुद्धता को प्राप्त करता है और अशुद्ध स्वभाव में अपनापन स्थापित करनेवाला अशुद्ध रहता है ।

( १० )

आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणमुद्दिट्ठं ।  
णेयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सव्वगयं ॥  
यह आत्म ज्ञानप्रमाण है अर ज्ञान ज्ञेयप्रमाण है ।  
हैं ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है ॥

आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान ज्ञेयप्रमाण कहा गया है । ज्ञेय तो सम्पूर्ण लोकालोक है । यही कारण है कि लोकालोकरूप ज्ञेय को जानने वाले ज्ञान को भी सर्वगत कहा गया है । यद्यपि आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों से बाहर नहीं जाता, तथापि सब को जानने वाला होने से सर्वगत कहा जाता है ।

( ११ )

दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्चं ।  
ताण पुण जाण तिण्णवि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥  
चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधुजन सेवें सदा ।  
ये तीन ही हैं आत्मा बस कहे निश्चयनय सदा ॥  
साधु पुरुषों को सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान व सम्यक्चारित्र का नित्य सेवन करना चाहिए; क्योंकि उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो ।

१. समयसार, गाथा १८६  
११. समयसार, गाथा १६

१०. प्रवचनसार, गाथा २३

( १२-१३ )

जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सद्वहदि ।  
तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥  
एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सद्वहेदव्वो ।  
अणुचरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्खकामेण ॥  
'यह नृपति है' यह जानकर अर्थार्थिजन श्रद्धा करें ।  
अनुचरण उसका ही करें अति प्रीति से सेवा करें ॥  
यदि मोक्ष की है कामना तो जीवनृप को जानिए ।  
अति प्रीति से अनुचरण करिये प्रीति से पहिचानिए ॥

जिस प्रकार कोई धनार्थी पुरुष राजा को जानकर उसका श्रद्धान करता है और उसका प्रयत्नपूर्वक अनुचरण करता है; उसी प्रकार मुमुक्षुओं को जीवरूपी राजा को जानना चाहिए, उसका श्रद्धान करना चाहिए एवं उसी का अनुचरण भी करना चाहिए, उसी में तन्मय हो जाना चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि आत्मार्थियों को सर्वप्रथम निज भगवान आत्मा को जानना चाहिए, फिर यह श्रद्धान करना चाहिए कि यह भगवान आत्मा मैं ही हूँ । इसके पश्चात् उसी में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि निज भगवान आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान ही निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है ।

( १४ )

जो इच्छइ णिस्मरिदुं संसारमहण्णवाउ रूद्धाओ ।  
कर्मिमधणाण डहणं सो झायड अप्पयं सुद्धं ॥  
जो भव्यजन संसार-सागर पार होना चाहते ।  
वे कर्मईधन-दहन निज शुद्धात्मा को ध्यावते ॥

जो जीव भयंकर संसाररूपी समुद्र से पार होना चाहते हैं, वे जीव कर्मरूपी ईधन को जलाने वाले अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं; क्योंकि शुद्धात्मा के ध्यानरूपी अग्नि ही कर्मरूपी ईधन को जलाने में समर्थ होती है । अतः मुमुक्षु का एकमात्र परम कर्तव्य निज शुद्धात्मा का ध्यान ही है ।

१२. समयसार, गाथा १७  
१४. अष्टपाहुड, गाथा २६

१३. समयसार, गाथा १८

( १५ )

मोक्खपहे अप्पाणं ठवेहि तं चेव झाहि तं चेय ।  
तत्थेव विहर णिचं मा विहरसु अण्णदव्वेसु ॥  
मोक्षपथ में थाप निज को चेतकर निज ध्यान धर ।  
निज में ही नित्य विहार कर पर द्रव्य में न विहार कर ॥

हे आत्मन् ! तू स्वयं को निजात्मा के अनुभवरूप मोक्षमार्ग में स्थापित कर, निजात्मा का ही ध्यान धर, निजात्मा में ही चेत, निजात्मा का ही अनुभव कर एवं निजात्मा के अनुभवरूप मोक्षमार्ग में ही नित्य विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर, उपयोग को अन्यत्र मत भटका, एक आत्मा का ही ध्यान धर ।

( १६ )

जीवादीसद्दहणं सम्मत तेसिमधिगमो णाणं ।  
रागादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥  
जीवादि का श्रद्धान सम्यक् ज्ञान सम्यग्ज्ञान है ।  
रागादि का परिहार चारित यही मुक्तीमार्ग है ॥

जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है और उन्हीं का ज्ञान सम्यग्ज्ञान है तथा रागादि भावों का त्याग सम्यक्चारित्र है – बस यही मोक्ष का मार्ग है ।

( १७ )

तच्चरुई सम्मतं तच्चगहणं च हवड सणाणं ।  
चारितं परिहारो परूवियं जिणवरिंदेहिं ॥  
तत्त्वरुचि सम्यक्त्व है तत्त्वग्रहण सम्यग्ज्ञान है ।  
जिनदेव ने ऐसा कहा परिहार ही चारित्र है ॥

तत्त्वरुचि सम्यग्दर्शन है, तत्त्वग्रहण सम्यग्ज्ञान है और मोह-राग-द्रेष एवं परपदार्थों का त्याग सम्यक्चारित्र है – ऐसा जिनेन्द्र देवों ने कहा है ।

परमतत्त्व रूप निज भगवान आत्मा की रुचि सम्यग्दर्शन, उसी का ग्रहण सम्यग्ज्ञान और उससे भिन्न परद्रव्यों एवं उनके लक्ष्य से उत्पन्न चिद्रविकारों का त्याग ही सम्यक्चारित्र है ।

१५. समयसार, गाथा ४१२

१६. समयसार, गाथा १५५

१७. अष्टपाहुड़ : मोक्षपाहुड़, गाथा ३८

( १८ )

जं जाणइ तं णाणं जं पिच्छइ तं च दंसणं णेयं ।  
तं चारित्तं भणियं परिहारो पुण्णपावाणं ॥  
जानना ही ज्ञान है अरु देखना दर्शन कहा ।  
पुण्य-पाप का परिहार चारित्र यही जिनवर ने कहा ॥

जो जानता है, वह ज्ञान है; जो देखता है, वह दर्शन है और पुण्य-पाप के परिहार को चारित्र कहा गया है; क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही रागभावरूप हैं और चारित्र वीतरागभावरूप होता है ।

( १९ )

णाणं चरित्तहीणं लिंगगहणं च दंसणविहूणं ।  
संजमहीणो य तवो जड़ चरड़ णिरत्थयं सव्व ॥  
दर्शन रहित यदि वेष हो चारित्र विरहित ज्ञान हो ।  
संयम रहित तप निरथक आकाश-कुसुम समान हो ॥

चारित्रहीन ज्ञान निरथक है, सम्यग्दर्शन के बिना लिंग-ग्रहण अर्थात् नग्न दिग्म्बर दीक्षा लेना निरथक है और संयम बिना तप निरथक है । सम्यग्ज्ञान की सार्थकता तदनुसार आचरण करने में है । तप भी संयमी को ही शोभा देता है और साधुवेष भी सम्यग्दृष्टियों का ही सफल है ।

( २० )

णाण चरितसुद्धं लिंगगहण च दसणविसुद्धं ।  
संजमसहिदो य तवो थोओ वि महाफलो होइ ॥  
दर्शन सहित हो वेष चारित्र शुद्ध सम्यग्ज्ञान हो ।  
संयम सहित तप अल्प भी हो तदपि सुफल महान हो ॥

चारित्र से शुद्ध ज्ञान, सम्यग्दर्शन सहित लिंगग्रहण एवं संयम सहित तप यदि थोड़ा भी हो तो महाफल देनेवाला होता है ।

१८. अष्टपाहुड़ : मोक्षपाहुड़, गाथा ३७

१९. अष्टपाहुड़ : शीलपाहुड़ गाथा ५

२०. अष्टपाहुड़ : शीलपाहुड़, गाथा ६

( २१ )

परमटुम्हि दु अठिदो जो कुणादि तवं वदं च धारेदि ।  
 तं सब्वं बालतवं बालवदं बेंति सब्वण्हू ॥  
 परमार्थ से हों दूर पर तप करें व्रत धारण करें ।  
 सब बालतप है बालब्रत वृषभादि सब जिनवर कहें ॥

परमार्थ में अस्थित अर्थात् निज भगवान आत्मा के अनुभव से रहित जो जीव तप करता है, व्रत धारण करता है; उसके उन व्रत और तप को सर्वज्ञ भगवान बालतप एवं बालब्रत कहते हैं। तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन एवं सम्यज्ञान बिना - आत्मानुभव के बिना किये गये व्रत और तप निरर्थक हैं।

( २२ )

वदणियमाणि धरंता सीलाणि तहा तवं च कुब्वंता ।  
 परमटुबाहिरा जे णिव्वाणं ते ण विंदंति ॥  
 व्रत नियम सब धारण करें तप शील भी पालन करें ।  
 पर दूर हों परमार्थ से ना मुक्ति की प्राप्ति करें ॥

शील और तप को करते हुए भी, व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी जो जीव परमार्थ से बाह्य हैं, परमार्थ अर्थात् सर्वोत्कृष्ट पदार्थ निज भगवान आत्मा के अनुभव से रहित हैं, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। निर्वाण की प्राप्ति आत्मानुभवियों को ही होती है।

( २३ )

जं सक्कइ तं कीरइ जं च ण सक्केइ तं च सद्हणं ।  
 केवलिजिणेहिं भणियं सद्हमाणस्स सम्मतं ॥  
 जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें ।  
 श्रद्धान ही सम्यक्त्व है इस भाँति सब जिनवर कहें ॥

जो शक्य हो, वह करें; जो शक्य न हो, न करें; पर श्रद्धान तो सभी का करें; क्योंकि केवली भगवान ने श्रद्धान करने वाले को सम्यग्दर्शन होता है - ऐसा कहा है।

२१. समयसार, गाथा १५२

२२. समयसार, गाथा १५३

२२. अष्टपाहुड़ : दर्शनपाहुड़, गाथा २२

( २४ )

जीवादीसद्हणं सम्मतं जिणवरेहिं पण्णतं ।  
 ववहारा णिच्छयदो अप्पाणं हवड़ सम्मतं ॥  
 जीवादि का श्रद्धान ही व्यवहार से सम्यक्त्व है ।  
 पर नियत नय से आत्म का श्रद्धान ही सम्यक्त्व है ।  
 जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि जीवादि तत्त्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है और अपने आत्मा का श्रद्धान निश्चय सम्यग्दर्शन है।

( २५ )

सद्व्वरओ सवणो सम्माइट्टी हवेड़ णियमेण ।  
 सम्मतपरिणदो उण खवेड़ दुड्डुकम्माइं ॥  
 नियम से निज द्रव्य में रत श्रमण सम्यक्त्वंत हैं ।  
 सम्यक्त्व-परिणत श्रमण ही क्षय करें करमानन्त हैं ॥

जो श्रमण स्वद्रव्य में रत है, रुचिवंत है; वह नियम से सम्यक्त्व सहित है। सम्यक्त्व सहित वह श्रमण दुष्टाष्ट कर्मों का नाश करता है। अपने आत्मा में अपनापन स्थापित कर अपने आत्मा में लीन हो जाने वाले सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा श्रमण आठ कर्मों का नाश करते हैं, सिद्धदशा को प्राप्त करते हैं।

( २६ )

किं बहुणा भणिएण जे सिद्धा णरवरा गए काले ।  
 सिज्जिहहि जे वि भविया तं जाणह सम्ममाहप्पं ॥  
 मुक्ती गये या जायेंगे माहात्म्य है सम्यक्त्व का ।  
 यह जान लो हे भव्यजन ! इससे अधिक अब कहें क्या ॥

अधिक कहने से क्या लाभ है, इतना समझ लो कि आज तक जो जीव सिद्ध हुए हैं और भविष्यकाल में होंगे, वह सब सम्यग्दर्शन का ही माहात्म्य है।

तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन के बिना न तो आज तक कोई सिद्ध हुआ है और न भविष्य में होगा ।

२४. अष्टपाहुड़ : दर्शनपाहुड़, गाथा २०

२६. अष्टपाहुड़ : मोक्षपाहुड़, गाथा ८८

२५. अष्टपाहुड़ : मोक्षपाहुड़, गाथा १४

( २७ )

ते धणा सुकयत्था ते सूरा ते वि पंडिया मणुया ।  
सम्मतं सिद्धियरं सिविणे वि ण मङ्गलियं जेहिं ॥  
वे धन्य हैं सुकृतार्थ हैं, वे शूर नर पण्डित वही ।  
दुःस्वप्न में सम्यक्त्व को जिनने मलीन किया नहीं ॥

जिन जीवों ने मुक्ति प्राप्त कराने वाले सम्यग्दर्शन को स्वप्न में भी मलिन नहीं किया; वे ही धन्य हैं, कृतार्थ हैं, शूरवीर हैं, पण्डित हैं, मनुष्य हैं । तात्पर्य यह है कि सभी गुण सम्यग्दर्शन से ही शोभा पाते हैं । अतः हमें निर्मल सम्यग्दर्शन धारण करना चाहिए । स्वप्न में भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे सम्यग्दर्शन में मलिनता उत्पन्न हो ।

( २८ )

भूदत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।  
आसवसंवरणिज्जरबंधो मोक्खो य सम्मतं ॥  
चिदचिदास्त्रव पाप-पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा ।  
तत्त्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व हैं ॥

भूतार्थ (निश्चय) नय से जाने हुए जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष - ये नव तत्त्व ही सम्यग्दर्शन हैं । तात्पर्य यह है कि मात्र व्यवहार से तत्त्वों का स्वरूप जान लेना पर्याप्त नहीं है, नव तत्त्वों का वास्तविक स्वरूप निश्चयनय से जानना चाहिए ।

( २९ )

ववहारो भूदत्थो भूदत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।  
भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्टी हवदि जीवो ॥  
शुद्धनय भूतार्थ है अभूतार्थ है व्यवहारनय ।  
भूतार्थ की ही शरण गह यह आत्मा सम्यक् लहे ॥

व्यवहारनय अभूतार्थ (असत्यार्थ) है और शुद्धनय (निश्चयनय) भूतार्थ (सत्यार्थ) है । जो जीव भूतार्थ अर्थात् शुद्ध निश्चयनय के विषयभूत निज भगवान आत्मा का आश्रय लेता है, वह जीव नियम से सम्यग्दृष्टि होता है ।

२७. अष्टपाहुड़ : मोक्षपाहुड़, गाथा ८९

२८. समयसार, गाथा १३

२९. समयसार, गाथा ११

( ३० )

जह ण वि सक्कमणज्जो अणज्जभासं विणा दु गाहेदु ।  
तह ववहारेण विणा परमत्थुवदेसणमसकं ॥  
अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को ।  
बस त्योहि समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को ॥

जिसप्रकार अनार्य (म्लेच्छ) जनों को अनार्य भाषा के बिना कोई भी बात समझाना शक्य नहीं है, उसीप्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है । तात्पर्य यह है कि अभूतार्थ होने पर भी निश्चय का प्रतिपादक होने के कारण व्यवहार को जिनवाणी में स्थान प्राप्त है ।

( ३१ )

ववहारणओ भासदि जीवो देहो य हवदि खलु एक्को ।  
ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदा वि एक्कट्टो ॥  
देह-चेतन एक हैं - यह वचन है व्यवहार का ।  
ये एक हो सकते नहीं - यह कथन है परमार्थ का ॥

व्यवहारनय तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, किन्तु निश्चयनय के अभिप्राय से जीव और शरीर कदापि एक नहीं हो सकते हैं, वे भिन्न-भिन्न ही हैं । यह असद्भूत-व्यवहारनय का प्रतिपादन है, जिसका निषेध निश्चयनय कर रहा है ।

( ३२ )

ववहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्त दंसणं णाणं ।  
ण वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥  
दृग् ज्ञान चारित जीव के हैं - यह कहा व्यवहार से ।  
ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से ॥

व्यवहारनय से कहा जाता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है; किन्तु निश्चय से ज्ञानी के न ज्ञान है, न दर्शन है और न चारित्र है, ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है । यह सद्भूत-व्यवहारनय का कथन है, जिसका निषेध निश्चय कर रहा है ।

३०. समयसार, गाथा ८

३२. समयसार, गाथा ७

३१. समयसार, गाथा २७

( ३३ )

जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गा॒ सकज्जमि॑ ।  
 जो जग्गदि॑ ववहारे सो सुत्तो अप्पणो॑ कज्जे॒ ॥  
 जो सो रहा॑ व्यवहार में॑ वह जागता॑ निज कार्य में॑ ।  
 जो जागता॑ व्यवहार में॑ वह सो रहा॑ निज कार्य में॑ ॥  
 जो योगी॑ व्यवहार में॑ सोता॑ है, वह अपने॑ स्वरूप की॑ साधना॑ के॑ काम में॑  
 जागता॑ है और जो व्यवहार में॑ जागता॑ है, वह अपने॑ काम में॑ सोता॑ है ।  
 स्वरूप की॑ साधना॑ ही॑ निश्चय से॑ आत्मा॑ का॑ कार्य है॑ । अतः॑ साधुजन॑  
 व्यर्थ के॑ व्यवहार में॑ न॑ उलझ कर॑ एकमात्र॑ अपने॑ आत्मा॑ की॑ साधना॑ करते हैं॑ ।

( ३४ )

एवं॑ ववहारणओ॑ पडिसिद्धो॑ जाण॑ णिच्छयणएण॑ ।  
 णिच्छयणयासिदा॑ पुण॑ मुणिणो॑ पावंति॑ णिव्वाण॑ ॥  
 इस ही॑ तरह॑ परमार्थ से॑ कर॑ नास्ति॑ इस व्यवहार की॑ ।  
 निश्चयनयाश्रित॑ श्रमणजन॑ प्राप्ति॑ करें॑ निर्वाण॑ की॑ ॥

इसप्रकार॑ निश्चयनय के॑ द्वारा॑ व्यवहारनय को॑ निषिद्ध॑ (निषेध कर॑ दिया॑  
 गया॑) जानो॑, क्योंकि॑ निश्चयनय का॑ आश्रय॑ लेनेवाले॑ मुनिराज॑ ही॑ निर्वाण॑ को॑  
 प्राप्त होते हैं॑ । व्यवहारनय॑ निश्चयनय का॑ प्रतिपादक॑ होता॑ है॑ और॑ निश्चयनय॑  
 व्यवहारनय का॑ निषेधक॑ - इन दोनों॑ नयों॑ में॑ ऐसा॑ ही॑ संबंध है॑ ।

( ३५ )

दंसणमूलो॑ धर्मो॑ उवङ्गद्वो॑ जिणवरेहिं॑ सिस्साण॑ ।  
 तं॑ सोऊण॑ सकणे॑ दंसणहीणो॑ ण॑ वंदिब्वो॑ ॥  
 सद्धर्म का॑ है॑ मूल॑ दर्शन॑ जिनवरेन्द्रों॑ ने॑ कहा॑ ।  
 हे॑ कानवालो॑ सुनो॑ दर्शन॑-हीन॑ वंदन॑ योग्य ना॑ ॥

जिनवरदेव॑ ने॑ अपने॑ शिष्यों॑ से॑ कहा॑ कि॑ धर्म का॑ मूल॑ सम्यग्दर्शन॑ है॑ । अतः॑  
 हे॑ जिनवरदेव॑ के॑ शिष्यों॑ ! कान॑ खोलकर॑ सुन॑ लो॑ कि॑ सम्यग्दर्शन॑ से॑ रहित॑  
 व्यक्ति॑ वंदना॑ करने॑ योग्य नहीं॑ है॑ ।

३३. अष्टपाहुड़ : मोक्षपाहुड़, गाथा ३१

३४. समयसार, गाथा २७२

३५. अष्टपाहुड़ : दर्शनपाहुड़, गाथा ४२

( ३६ )

जे॑ दंसणेसु॑ भट्ठा॑ णाणे॑ भट्ठा॑ चरित्तभट्ठा॑ य॑ ।  
 एदे॑ भट्ठ॑ वि॑ भट्ठा॑ सेसं॑ जणं॑ विणासंति॑ ॥  
 जो॑ ज्ञान-दर्शन-भ्रष्ट है॑ चारित्र॑ से॑ भी॑ भ्रष्ट है॑ ।  
 वे॑ भ्रष्ट करते॑ अन्य को॑ वे॑ भ्रष्ट से॑ भी॑ भ्रष्ट है॑ ॥  
 जो॑ सम्यग्दर्शन॑ से॑ भ्रष्ट है॑, सम्यग्ज्ञान॑ से॑ भ्रष्ट है॑ एवं॑ सम्यक्चारित्र॑ से॑ भ्रष्ट है॑;  
 वे॑ भ्रष्टों॑ में॑ भ्रष्ट है॑ । ऐसे॑ लोग॑ स्वयं॑ तो॑ नष्ट है॑ ही॑, अन्य॑ जनों॑ को॑ भी॑ नष्ट करते॑  
 है॑; अतः॑ ऐसे॑ लोगों॑ से॑ दूर॑ रहना॑ चाहिए॑ ।

( ३७ )

दंसणभट्ठा॑ भट्ठा॑ दंसणभट्ठस्स॑ णत्थि॑ णिव्वाण॑ ।  
 सिज्जांति॑ चरियभट्ठा॑ दंसणभट्ठा॑ च॑ सिज्जांति॑ ॥  
 दृग-भ्रष्ट है॑ वे॑ भ्रष्ट है॑ उनको॑ कभी॑ निर्वाण॑ ना॑ ।  
 हों॑ सिद्ध॑ चारित्र-भ्रष्ट पर॑ दृग-भ्रष्ट को॑ निर्वाण॑ ना॑ ॥

जो॑ पुरुष॑ सम्यग्दर्शन॑ से॑ भ्रष्ट है॑, वे॑ भ्रष्ट है॑; उनको॑ निर्वाण॑ की॑ प्राप्ति॑ नहीं॑  
 होती॑; क्योंकि॑ यह॑ प्रसिद्ध॑ है॑ कि॑ जो॑ चारित्र॑ से॑ भ्रष्ट है॑ वे॑ तो॑ सिद्धि॑ को॑ प्राप्त होते॑  
 है॑, परन्तु॑ जो॑ सम्यग्दर्शन॑ से॑ भ्रष्ट है॑, वे॑ सिद्धि॑ को॑ प्राप्त नहीं॑ होते॑ । तात्पर्य॑ यह॑ है॑  
 कि॑ चारित्र॑ की॑ अपेक्षा॑ श्रद्धा॑ का॑ दोष॑ बड़ा॑ माना॑ गया॑ है॑ ।

( ३८ )

जे॑ वि॑ पडंति॑ य॑ तेसि॑ जाणंता॑ लज्जागारवभयेण॑ ।  
 तेसि॑ पि॑ णत्थि॑ बोही॑ पावं॑ अणुमोयमाणाण॑ ॥  
 जो॑ लाज॑ गारव॑ और॑ भयवश॑ पूजते॑ दृग-भ्रष्ट को॑ ।  
 की॑ पाप की॑ अनुमोदना॑ ना॑ बोधि॑ उनको॑ प्राप्त हो॑ ॥

‘ये॑ साधु॑ सम्यग्दर्शन-भ्रष्ट है॑’ - ऐसा॑ जानकर॑ भी॑ जो॑ पुरुष॑ लज्जा॑, गौरव॑  
 व॑ भय॑ से॑ उनके॑ पैरों॑ में॑ पड़ते॑ है॑, पाप की॑ अनुमोदना॑ करने॑ वाले॑ होने॑ से॑ उन्हें॑ भी॑  
 बोधि॑ (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र॑) नहीं॑ है॑ ।

३६. अष्टपाहुड़ : दर्शनपाहुड़, गाथा ८

३७. अष्टपाहुड़ : दर्शनपाहुड़, गाथा ३

३८. अष्टपाहुड़ : दर्शनपाहुड़, गाथा १३

( ३९ )

जे दंसणेसु भट्ठा पाए पाड़ति दंसणधराणं ।  
ते होंति लल्लमूआ बोही पुण दुल्लहा तेसिं ॥  
चाहें नमन दृगवंत से पर स्वयं दर्शनहीन हों ।  
है बोधिदुर्लभ उन्हें भी वे भी वचन-पग हीन हों ॥

जो पुरुष स्वयं सम्यगदर्शन से भ्रष्ट हैं, पर अन्य सम्यगदृष्टियों से अपने पैर पुजवाते हैं या पुजवाना चाहते हैं, वे परभव में लूले और गूँगे होते हैं, उन्हें भी बोधि (सम्यगदर्शन-ज्ञान-चारित्र) की प्राप्ति दुर्लभ है। यहाँ आचार्यदेव लूले और गूँगे कह कर यह कहना चाहते हैं कि वे एकेन्द्रिय पेड़-पौधे होंगे, जहाँ चलना-फिरना और बोलना संभव नहीं होगा ।

( ४० )

सम्मत्तविरहियाणं सुट्ठु वि उगं तवं चरंता णं ।  
ण लहंति बोहिलाहं अवि वाससहस्सकोडीहिं ॥  
यद्यपि करें वे उग्र तप शत-सहस-कोटी वर्ष तक ।  
पर रत्नत्रय पावें नहीं सम्यक्त्व-विरहित साधु सब ॥

जो मुनि सम्यगदर्शन से रहित हैं, वे हजार करोड़ (दश अरब) वर्ष तक भलीभाँति उग्र तप करें, तब भी उन्हें बोधि (रत्नत्रय) की प्राप्ति नहीं होती है ।

( ४१ )

जह मूलम्मि विणट्ठे दुमस्स परिवार णत्थि परवड्ढी ।  
तह जिणदंसणभट्ठा मूलविणट्ठा ण सिजङ्गंति ॥  
जिस्तरह द्रुम परिवार की वृद्धि न हो जड़ के बिना ।  
बस उस्तरह ना मुक्ति हो जिनमार्ग में दर्शन बिना ॥

जिस प्रकार वृक्ष की जड़ के नष्ट हो जाने पर उसके परिवार (तना, शाखा, पत्र, पुष्प, फूल आदि) की वृद्धि नहीं होती; उसी प्रकार सम्यगदर्शन से भ्रष्ट मुनि मूल से ही विनष्ट हैं; अतः उन्हें मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है ।

३९. अष्टपाहुड़ : दर्शनपाहुड़, गाथा १२

४१. अष्टपाहुड़ : दर्शनपाहुड़, गाथा १०

४०. अष्टपाहुड़ : दर्शनपाहुड़, गाथा ५

( ४२ )

अस्संजदं ण वन्दे वत्थविहीणो वि तो ण वंदिज्ज ।  
दोण्णि वि होंति समाणा एगो वि ण संजदो होदि ॥  
असंयमी न वन्द्य है दृगहीन वस्त्रविहीन भी ।  
दोनों ही एक समान हैं दोनों ही संयत हैं नहीं ॥

असंयमी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। इसीप्रकार यदि भावसंयम नहीं है, पर बाहर से वस्त्रादि त्यागकर द्रव्यसंयम धारण कर लिया है तो वह भी वंदनीय नहीं है; क्योंकि असली संयम के अभाव में दोनों ही समान रूप से अवंदनीय है ।

( ४३ )

ण वि देहो वंदिज्जइ ण वि य कुलो ण वि य जाइसंजुत्तो ।  
को वंदमि गुणहीणो ण हु सवणो णेय सावओ होइ ॥  
ना वंदना हो देह की कुल की नहीं ना जाति की ।  
कोई करे क्यों वंदना गुण-हीन श्रावक-साधु की ॥

न तो देह वंदनीय है, न कुल वंदनीय है और न जाति ही वंदनीय है। गुणहीनों की वंदना कौन करे? क्योंकि गुणहीन न तो सच्चे श्रावक ही होते हैं और न सच्चे श्रमण ही ।

( ४४ )

कम्मे णोकम्मम्हि य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं ।  
जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥  
मैं कर्म हूँ नोकर्म हूँ या हैं हमारे ये सभी ।  
यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानि हैं तब तक सभी ॥

जब तक इस आत्मा की ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मों, मोह-राग-द्वेषादि भावकर्मों एवं शरीरादि नोकर्मों में आत्मबुद्धि रहेगी अर्थात् “यह मैं हूँ और कर्म-नोकर्म मुझमें हैं” – ऐसी बुद्धि रहेगी, ऐसी मान्यता रहेगी, तब तक यह आत्मा अप्रतिबुद्ध है। तात्पर्य यह है कि शरीरादि परपदार्थों एवं मोहादि विकारी पर्यायों में अपनापन ही अज्ञान है ।

४२. अष्टपाहुड़ : दर्शनपाहुड़, गाथा २६

४४. समयसार, गाथा १९

४३. अष्टपाहुड़ : दर्शनपाहुड़, गाथा २७

( ४५ )

कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तहेव परिणामं ।  
 ण करेड एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥  
 करम के परिणाम को नोकरम के परिणाम को ।  
 जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद्ज्ञान को ॥  
 जो आत्मा कर्म के परिणाम को एवं नोकर्म के परिणाम को नहीं करता है;  
 किन्तु मात्र जानता है, वह ज्ञानी है । तात्पर्य यह है कि परकर्त्तव का भाव  
 अज्ञान है, क्योंकि ज्ञानभाव तो मात्र जाननरूप ही होता है ।

( ४६ )

जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।  
 सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥  
 मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारें अन्यजन ।  
 यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहें हे भव्यजन ॥

जो जीव यह मानता है कि मैं पर-जीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे  
 मारते हैं, वह मूढ़ है, अज्ञानी है । इससे विपरीत मानने वाला ज्ञानी है । तात्पर्य  
 यह है कि ज्ञानी यह मानता है कि न मैं किसी को मार सकता हूँ और न कोई  
 मुझे मार सकता है ।

( ४७ )

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पण्णत्तं ।  
 आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कदं तेसि ॥  
 निज आयुक्षय से मरण हो – यह बात जिनवर ने कही ।  
 तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं? ॥  
 जीवों का मरण आयुकर्म के क्षय से होता है – ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा  
 है । तुम परजीवों के आयुकर्म को तो हरते नहीं हो; फिर तुमने उनका मरण  
 कैसे किया? – यह बात गंभीरता से विचार करने योग्य है ।

४५. समयसार, गाथा ७५  
 ४७. समयसार, गाथा २४८

४६. समयसार, गाथा २४७

( ४८ )

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पण्णत्तं ।  
 आउं ण हरंति तुहं कह ते मरणं कदं तेहिं ॥  
 निज आयुक्षय से मरण हो – यह बात जिनवर ने कही ।  
 वे मरण कैसे करें तब जब आयु हर सकते नहीं? ॥  
 जीवों का मरण आयुकर्म के क्षय से होता है – ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा  
 है । परजीव तेरे आयुकर्म को तो हरते नहीं है तो उन्होंने तेरा मरण कैसे किया?  
 अतः अपने मरण का दोष पर के माथे मढ़ना अज्ञान ही है ।

( ४९ )

जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।  
 सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥  
 मैं हूँ बचाता अन्य को मुझको बचावे अन्यजन ।  
 यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहें हे भव्यजन! ॥

जो जीव यह मानता है कि मैं पर-जीवों को जिला (रक्षा करता) हूँ और  
 पर-जीव मुझे जिलाते (रक्षा करते) हैं; वह मूढ़ है, अज्ञानी है और इसके  
 विपरीत मानने वाला ज्ञानी है । तात्पर्य यह है कि एक जीव दूसरे जीव के  
 जीवन-मरण और सुख-दुख का कर्ता-धर्ता नहीं है, अज्ञानी जीव व्यर्थ ही पर  
 का कर्ता-धर्ता बनकर दुखी होता है ।

( ५० )

आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण्हू ।  
 आउं च ण देसि तुमं कहं तए जीविदं कदं तेसि ॥  
 सब आयु से जीवित रहें – यह बात जिनवर ने कही ।  
 जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं? ॥

जीव आयुकर्म के उदय से जीता है – ऐसा सर्वज्ञदेव ने कहा है । तुम पर-  
 जीवों को आयुकर्म तो देते नहीं तो तुमने उनका जीवन (रक्षा) कैसे किया?

४८. समयसार, गाथा २४९  
 ५०. समयसार, गाथा २५१

४९. समयसार, गाथा २५०

( ५१ )

आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणांति सव्वण्हू ।  
 आउं च ण दिंति तुहं कहं णु ते जीविदं कदं तेहिं ॥  
 सब आयु से जीवित रहें - यह बात जिनवर ने कही।  
 कैसे बचावे वे तुझे जब आयु दे सकते नहीं? ॥  
 जीव आयुकर्म के उदय से जीता है - ऐसा सर्वज्ञदेव कहते हैं। पर-जीव  
 तुझे आयुकर्म तो देते नहीं हैं तो उन्होंने तेरा जीवन (रक्षा) कैसे किया?

( ५२ )

जो अप्पणा दु मण्णदि दुक्खिक्षदसुहिदे करोमि सत्तेति ।  
 सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥  
 मैं सुखी करता दुःखी करता हूँ जगत में अन्य को।  
 यह मान्यता अज्ञान है क्यों ज्ञानियों को मान्य हो? ॥

जो यह मानता है कि मैं परजीवों को सुखी-दुःखी करता हूँ, वह मूढ़ है,  
 अज्ञानी है। ज्ञानी इससे विपरीत मानता है। ज्ञानी जानता है कि लौकिक सुख व  
 दुःख तो जीवों को अपने पुण्य-पाप के अनुसार होते हैं, वे तो उनके स्वयं के  
 कर्मों के फल हैं। उनमें किसी दूसरे जीव का रंचमात्र भी कर्त्तव्य नहीं है।

( ५३ )

अजङ्गवसिदेण बंधो सत्ते मारेउ मा व मारेउ ।  
 एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥  
 मारो न मारो जीव को हो बंध अध्यवसान से ।  
 यह बंध का संक्षेप है तुम जान लो परमार्थ से ॥

जीवों को मारो अथवा न मारो, कर्मबंध तो मात्र अध्यवसान (मोह-राग-  
 द्वेष) से ही होता है। निश्चयनय से जीवों के बंध का स्वरूप संक्षेप में यही है।  
 बंध का संबंध पर-जीवों के जीवन-मरण से न होकर जीव के स्वयं के  
 मोह-राग-द्वेष परिणामों से है। अतः बंध से बचने के लिए परिणामों की  
 संभाल अधिक आवश्यक है।

५१. समयसार, गाथा २५२  
 ५३. समयसार, गाथा २६२

५२. समयसार, गाथा २५३

( ५४ )

मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्य णिच्छिदा हिंसा ।  
 पयदस्स णात्थि बंधो हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥  
 प्राणी मरें या न मरें हिंसा अयत्नाचार से ।  
 तब बंध होता है नहीं जब रहें यत्नाचार से ॥  
 जीव मरे चाहे न मरे, पर अयत्नाचार प्रवृत्ति वाले के हिंसा होती ही है।  
 यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करने वाले के मात्र बाह्य हिंसा से बंध नहीं होता। तात्पर्य  
 यह है कि बंध का सम्बन्ध जितना अनर्गलप्रवृत्ति से है, उतना जीवों के मरने-  
 जीने से नहीं। अतः बंध से बचने के लिए अनर्गलप्रवृत्ति से बचना चाहिए।

( ५५ )

दब्वं सल्लक्खणियं उप्पादब्वयधुवत्तसंजुत्तं ।  
 गुणपञ्जयासयं वा जं तं भण्णांति सव्वण्हू ॥  
 उत्पाद-व्यय-ध्वयुक्त सत् सत् द्रव्य का लक्षण कहा।  
 पर्याय-गुणमय द्रव्य है - यह बचन जिनवर ने कहा।

उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य युक्त सत् जिसका लक्षण है और जिसमें गुण व  
 पर्यायों पाई जाती हैं, उसे सर्वज्ञ भगवान द्रव्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि द्रव्य  
 का लक्षण सत् है और सत् उत्पाद-व्यय और ध्रौव्य से युक्त होता है। अथवा  
 गुण और पर्यायवाली वस्तु को द्रव्य कहते हैं।

( ५६ )

पञ्जयविजुं दब्वं दब्वविजुत्ता य पञ्जया णात्थि ।  
 दोणहं अणण्णभूदं भावं समणा परूवेंति ॥  
 पर्याय बिन ना द्रव्य हो ना द्रव्य बिन पर्याय ही।  
 दोनों अनन्य रहे सदा - यह बात श्रमणों ने कही।

जैन श्रमण कहते हैं कि पर्यायों के बिना द्रव्य नहीं होता; और द्रव्य के  
 बिन पर्यायों नहीं होती, क्योंकि दोनों में अनन्यभाव है।

५४. प्रवचनसार, गाथा २१७

५६. पंचास्तिकाय संग्रह, गाथा १२

५५. पंचास्तिकाय संग्रह, गाथा १०

( ५७ )

दव्वेण विणा ण गुणा गुणेहि॑ दव्वं विणा ण संभवादि॑।  
अव्वदिरित्तो भावो दव्वगुणाणं हवदि॑ तम्हा ॥  
द्रव्य बिन गुण हों नहीं गुण बिना द्रव्य नहीं बने।  
गुण द्रव्य अव्यतिरिक्त हैं - यह कहा जिनकर देव ने॥

द्रव्य के बिना गुण नहीं होते और गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता; क्योंकि दोनों में अव्यक्तिरिक्त भाव (अभिन्नपना) है।

गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अतः द्रव्य और गुणों का भिन्न-भिन्न होना संभव नहीं है। द्रव्य और गुणों में मात्र अंशी-अंश का भेद है।

( ५८ )

भावस्स पत्थि॑ णासो णत्थि॑ अभावस्स चेव उप्पादो॑।  
गुणपञ्जाएसु॑ भावा उप्पादवए॑ पकुव्वंति॑ ॥  
उत्पाद हो न अभाव का ना नाश हो सद्भाव में।  
उत्पाद-व्यय करते रहें सब द्रव्य गुण-पर्याय में॥

भाव का अर्थात् जो पदार्थ है, उसका नाश नहीं होता और अभाव का अर्थात् जो पदार्थ नहीं है, उसका उत्पाद नहीं होता। भाव अर्थात् सभी पदार्थ अपने गुण-पर्यायों का उत्पाद-व्यय करते हैं। तात्पर्य यह है कि सत् का कभी नाश नहीं होता और असत् का उत्पाद नहीं होता; पर सभी पदार्थों में प्रतिसमय परिणमन अवश्य होता रहता है।

( ५९ )

तक्कालिगेव सब्वे सद सब्बूदा हि॑ पज्जया तासिं॑।  
वद्गन्ते ते णाणे विसेसदो॑ दव्वजादीणं॑ ॥  
असद्भूत हों सद्भूत हों सब द्रव्य की पर्याय सब।  
सद्ज्ञान में वर्तमानवत ही हैं सदा वर्तमान सब॥

जीवादि द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान और अविद्यमान पर्यायों तात्कालिक (वर्तमान) पर्यायों की भाँति विशेष रूप से ज्ञान में झलकती हैं।

५७. पंचास्तिकाय संग्रह, गाथा १३

५८. पंचास्तिकाय संग्रह, गाथा १५

५९. प्रवचनसार, गाथा ३७

( ६० )

जे णेव हि॑ संजाया जे खलु॑ णट्टा॑ भवीय पज्जाया॑।  
ते होंति॑ असब्बूदा॑ पज्जाया॑ णाणपच्चकखा॑ ॥  
पर्याय जो अनुत्पन्न हैं या नष्ट जो हो गई हैं।  
असद्भावी॑ वे सभी पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष हैं॥

जो पर्यायें अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं और जो पर्यायें उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं वे अविद्यमान पर्यायें भी ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञात होती हैं। ज्ञान का ऐसा ही स्वभाव है कि उसमें भूतकालीन विनष्ट पर्यायें और भविष्यकालीन अनुत्पन्न पर्यायें भी स्पष्ट झलकती हैं।

( ६१ )

जदि॑ पच्चकखमजादं॑ पज्जायं॑ पलयिदं॑ च णाणस्स ।  
ण हवदि॑ वा तं॑ णाणं॑ दिव्वं॑ ति॑ हि॑ के पर्स्वोंति॑ ॥  
पर्याय जो अनुत्पन्न हैं या हो गई हैं नष्ट जो।  
फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवें नहीं वो?॥

यदि अनुत्पन्न और विनष्ट पर्यायें सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञात न हों तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की दिव्यता ही इस बात में है कि उसमें भूत-भविष्य की पर्यायें भी प्रतिबिम्बित होती हैं।

( ६२ )

अरहंतभासियत्थं॑ गणहरदेवेहि॑ गंथियं॑ सम्मं॑।  
सुत्तथमगणत्थं॑ सवणा॑ साहंति॑ परमत्थं॑ ॥  
अरहंत-भासित ग्रथित-गणधर सूत्र से ही श्रमणजन।  
परमार्थ का साधन करें अध्ययन करो हे भव्यजन॥

अरहंत भगवान द्वारा कहा गया और गणधरदेव द्वारा भले प्रकार से गूँथा गया जो जिनागम है, वही सूत्र है। ऐसे सूत्रों के आधार पर श्रमणजन परमार्थ को साधते हैं। तात्पर्य यह है कि जिनागम श्रमणों के लिए परमार्थसाधक हैं।

६०. प्रवचनसार, गाथा ३८

६१. प्रवचनसार, गाथा ३९

६२. अष्टपाहुड़ : सूत्रपाहुड़, गाथा १

( ६३ )

सुतं हि जाणमाणो भवस्स भवणासणं च सो कुणदि ।  
सुई जहा असुत्ता णासदि सुते सहा णो वि ॥  
डोरा सहित सुई नहीं खोती गिरे चाहे वन भवन ।  
संसार-सागर पार हों जिनसूत्र के ज्ञायक श्रमण ॥

जिसप्रकार सूत्र (डोरा) सहित सुई खोती नहीं है, सूत्र रहित खो जाती है; उसी प्रकार सूत्र (शास्त्र) सहित श्रमण नाश को प्राप्त नहीं होते। सूत्रों को जानने वाले श्रमण संसार का नाश करते हैं; क्योंकि संसार के नाश और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय सूत्रों (शास्त्रों) में ही बताया गया है।

( ६४ )

जिणसत्थादो अट्ठे पच्चक्खादीहिं बुज्जदो णियमा ।  
खीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्थं समधिदब्वं ॥  
तत्त्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिनशास्त्र से ।  
दृग्मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए ॥

जिनशास्त्रों के द्वारा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से पदार्थों को जानने वालों के नियम से मोह का नाश हो जाता है; इसलिए शास्त्रों का अध्ययन अच्छी तरह से अवश्य करना चाहिए।

( ६५ )

सब्वे आगमसिद्धा अत्था गुणपञ्जएहिं चित्तेहिं ।  
जाणंति आगमेण हि पेच्छित्ता ते वि ते समणा ॥  
जिन-आगमों से सिद्ध हों सब अर्थ गुण-पर्यय सहित ।  
जिन-आगमों से ही श्रमणजन जानकर साधें स्वहित ॥

विचित्र गुण-पर्ययों से सहित सभी पदार्थ आगमसिद्ध हैं। श्रमणजन उन पदार्थों को आगम के अभ्यास से ही जानते हैं। तात्पर्य यह है कि क्षेत्र व काल से दूरवर्ती एवं सूक्ष्म पदार्थ केवलज्ञान बिना प्रत्यक्ष नहीं जाने जा सकते; अतः वे क्षयोपशम ज्ञानी मुनिराजों द्वारा आगम से ही जाने जाते हैं।

६३. अष्टपाहुड़ : सूत्रपाहुड़, गाथा ३

६५. प्रवचनसार, गाथा २३५

६४. प्रवचनसार, गाथा ८६

( ६६ )

एयगगदो समणो एयगं णिच्छिदस्स अत्थेसु ।  
णिच्छित्ती आगमदो आगमचेड्हा तदो जेड्हा ॥  
स्वाध्याय से जो जानकर निज अर्थ में एकाग्र हैं ।  
भूतार्थ से वे ही श्रमण स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ हैं ॥

सच्चा श्रमण वही है, जिसे अपने आत्मा की एकाग्रता प्राप्त हो। एकाग्रता उसे ही प्राप्त होती है, जिसने पदार्थों का निश्चय किया हो। पदार्थों का निश्चय आगम से होता है; अतः आगम में चेष्टा ही ज्येष्ठ है। तात्पर्य यह कि आगम का अभ्यास आवश्यक, अनिवार्य और श्रेष्ठ कर्तव्य है।

( ६७ )

आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि ।  
अविजाणंतो अत्थे खवेदि कम्मणि किंध भिक्खू ॥  
जो श्रमण आगमहीन हैं वे स्वपर को नहिं जानते ।  
वे कर्मक्षय कैसे करें जो स्वपर को नहिं जानते? ॥  
आगम-हीन श्रमण आत्मा को और पर को नहीं जानता है। पदार्थों को नहीं जानने वाला श्रमण कर्मों का नाश किसप्रकार कर सकता है?

( ६८ )

पूयादिसु वयसहियं पुण्णं हि जिणेहिं सासणे भणियं ।  
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो ॥  
ब्रत सहित पूजा आदि सब जिन धर्म में सत्कर्म हैं ।  
दृग्मोह - क्षोभ विहीन निज परिणाम आत्मधर्म हैं ॥

जिन शासन में जिनेन्द्रदेव ने इसप्रकार कहा है कि पूजादि करना एवं ब्रत धारण करना पुण्य ही है और मोह (मिथ्यात्व) व क्षोभ (राग-द्रेष) से रहित आत्मा का परिणाम धर्म है। तात्पर्य यह है कि शुभभाव पुण्य है और शुद्धभाव (वीतराग भाव) धर्म है।

६६. प्रवचनसार, गाथा २३२

६८. अष्टपाहुड़ : भावपाहुड़, गाथा ८३

६७. प्रवचनसार, गाथा २३३

( ६९ )

चारितं खलु धर्मो धर्मो जो सो समो त्ति णिद्विठो ।  
मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥  
चारित्र ही बस धर्म है वह धर्म समताभाव है ।  
दृगमोह-क्षेभ विहीन निज परिणाम समताभाव है ॥

वास्तव में तो चारित्र ही धर्म है । यह धर्म साम्यभाव रूप है तथा मोह (मिथ्यात्व) और क्षेभ (राग-द्वेष) से रहित आत्मा का परिणाम ही साम्य है – ऐसा कहा गया है । तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शन सहित चारित्र ही वास्तव में धर्म है ।

( ७० )

धर्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो ।  
पावदि णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो य सग्गसुहं ॥  
प्राप्त करते मोक्षसुख शुद्धोपयोगी आत्मा ।  
पर प्राप्त करते स्वर्गसुख हि शुभोपयोगी आत्मा ॥

धर्म से परिणमित स्वभाववाला आत्मा यदि शुद्धोपयोग में युक्त हो तो मोक्षसुख को प्राप्त करता है और यदि शुभोपयोग में युक्त हो तो स्वर्गसुख को प्राप्त करता है । तात्पर्य यह है कि मोक्ष का कारण शुद्धोपयोग ही है शुभोपयोग नहीं ।

( ७१ )

समणा सुद्धवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होंति समयम्हि ।  
तेसु वि सुद्धवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥  
शुभोपयोगी श्रमण हैं शुद्धोपयोगी भी श्रमण ।  
शुद्धोपयोगी निरास्त्रव हैं आस्त्रवी हैं शेष सब ॥

श्रमण दो प्रकार के होते हैं :– शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी । शुद्धोपयोगी श्रमण निरास्त्रव होते हैं, शेष सास्त्रव होते हैं – ऐसा शास्त्रों में कहा है । तात्पर्य यह है कि शुभोपयोग से आस्त्रव व बंध ही होता है; संवर, निर्जरा व मोक्ष नहीं । इसीप्रकार शुद्धोपयोग से संवर, निर्जरा व मोक्ष ही होता है; आस्त्रव व बंध नहीं ।

६९. प्रवचनसार, गाथा ७

७०. प्रवचनसार, गाथा ११

७१. प्रवचनसार, गाथा २४५

( ७२ )

समसत्तुबंधुवग्गो समसुहदुक्खो पसंसणिंदसमो ।  
समलोट्टुकंचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥  
कंच-कंचन बन्धु-अरि सुख-दुःख प्रशंसा-निन्द में ।  
शुद्धोपयोगी श्रमण का समताभाव जीवन-मरण में ॥

जिसे शत्रु और बन्धुवर्ग समान हैं, सुख-दुःख समान हैं, प्रशंसा-निन्द समान हैं, पत्थर और सोना समान हैं, जीवन और मरण भी समान हैं, वही सच्चा श्रमण है । तात्पर्य यह है कि अनुकूल-प्रतिकूल सभी प्रसंगों में समताभाव रखना ही श्रमणपना है ।

( ७३ )

भावसवणो वि पावड सुक्खाइं दुहाइं दव्वसवणो य ।  
इय णाउं गुणदोसे भावेण य संजुदो होह ॥  
भावलिंगी सुखी होते द्रव्यलिंगी दुःख लहें ।  
गुण-दोष को पहचान कर सब भाव से मुनि पद गहें ॥

भावश्रमण सुख को प्राप्त करता है और द्रव्यश्रमण दुख को प्राप्त करता है । इस प्रकार गुण-दोषों को जानकर हे जीव! तू भावसहित संयमी बन; कोरा द्रव्यसंयम धारण करने से कोई लाभ नहीं ।

( ७४ )

भावेण होइ णगो मिच्छत्ताई य दोस चइऊणं ।  
पच्छा दव्वेण मुणी पयडदि लिंगं जिणाणाए ॥  
मिथ्यात्व का परित्याग कर हो नम पहले भाव से ।  
आज्ञा यही जिनदेव की फिर नन होवे द्रव्य से ॥

पहले मिथ्यात्वादि दोष छोड़कर भाव से नम हो, पीछे नम दिग्म्बर द्रव्यलिंग धारण करे – ऐसी जिनज्ञा है । तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व छोड़े बिना, सम्यग्दर्शन-ज्ञान प्राप्त किए बिना, नमवेष धारण कर लेने से कोई लाभ नहीं है, अपितु हानि ही है ।

७२. प्रवचनसार, गाथा २४१

७३. अष्टपाहुड : भावपाहुड, गाथा १२७

७४. अष्टपाहुड : भावपाहुड, गाथा ७३

( ७५ )

णगो पावइ दुक्खं णगो संसारसायरे भमई ।  
णगो ण लहइ बोहिं जिणभावणवज्जिओ सुइं ॥  
जिन भावना से रहित मुनि भव में भ्रमें चिरकाल तक ।  
हों नगन पर हों बोधि-विरहित दुःख लहें चिरकाल तक ॥

जिनभावना से रहित अर्थात् सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से रहित मात्र द्रव्यलिंग धारण कर लेने वाला नग्न व्यक्ति दुःखों को प्राप्त करता है, चिरकाल तक संसार-सागर में परिभ्रमण करता है। ऐसा नग्न व्यक्ति बोधि को प्राप्त नहीं होता ।

( ७६ )

भावरहिओ ण सिझाइ जड़ वि तवं चरइ कोडिकोडीओ ।  
जम्मंतराइ बहुसो लंबियहत्थो गलियवत्थो ॥  
वस्त्रादि सब परित्याग कोड़ाकोड़ि वर्षों तप करें ।  
पर भाव बिन ना सिद्धि हो सत्यार्थ यह जिनवर कहें ॥

वस्त्रादि त्यागकर, हाथ लम्बे लटकाकर, जन्मजन्मान्तरों में कोटि-कोटि वर्षों तक तपश्चरण करें तो भी भाव रहित को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तात्पर्य यह है कि अंतरंग में भावों की शुद्धि बिना बाह्य में कितना ही तपश्चरण करे, कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है।

( ७७ )

दव्वेण सयल णगा णारयतिरिया य सयलसंधाया ।  
परिणामेण असुद्धा ण भावसवणत्तणं पत्ता ॥  
नारकी तिर्यच आदिक देह से सब नग्न हैं ।  
सच्चे श्रमण तो हैं वही जो भाव से भी नग्न हैं ॥

द्रव्य से बाह्य में तो सभी प्राणी नग्न होते हैं। नारकी व तिर्यच जीव तो सदा नग्न रहते ही हैं, कारण पाकर मनुष्यादि भी नग्न होते देखे जाते हैं; पर परिणामों से अशुद्ध होने से भावश्रमणपने को प्राप्त नहीं होते ।

७५. अष्टपाहुड़ : भावपाहुड़, गाथा ६८  
७७. अष्टपाहुड़ : भावपाहुड़, गाथा ६७

( ७८ )

जह जायरूवसरिसो तिलतुसमेतं ण गिहदि हत्थेसु ।  
जड़ लेइ अप्पवहयं तत्तो पुण जाइ णिगोदं ॥  
जन्मते शिशुवत अकिंचन नहीं तिलतुष हाथ में ।  
किंचित् परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाँय निगोद में ॥

जैसा बालक जन्मता है, साधु का रूप वैसा ही नग्न होता है। उसके तिल-तुष मात्र भी परिग्रह नहीं होता। यदि कोई साधु थोड़ा-बहुत भी परिग्रह ग्रहण करता है तो वह निश्चित रूप से निगोद जाता है।

( ७९ )

सम्मूहदि रक्खेदि य अदृं झाएदि बहुपयत्तेण ।  
सो पावमोहिदमदी तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥  
जो आर्त होते जोड़ते रखते रखाते यत्न से ।  
वे पाप मोहितमती हैं वे श्रमण नहीं तिर्यच हैं ॥

निर्ग्रन्थ नग्न दिगम्बर लिंग धारण करके भी जो बहुत प्रयत्न करके परिग्रह का संग्रह करता है, उसमें सम्मोहित होता है, उसकी रक्षा करता है, उसके लिए आर्तध्यान करता है; वह पाप से मोहित बुद्धिवाला श्रमण, श्रमण नहीं, पशु है, अज्ञानी है।

( ८० )

रागं करेदि णिच्चं महिलावगं परं च दूसेदि ।  
दंसणणाणविहीणो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥  
राग करते नारियों से दूसरों को दोष दें ।  
सद्ज्ञान-दर्शन रहित हैं वे श्रमण नहीं तिर्यच हैं ॥

निर्ग्रन्थ दिगम्बर लिंग धारण करके भी जो महिलावर्ग में राग करता है, उनसे रागात्मक व्यवहार करता है, प्रीतिपूर्वक वार्तालाप करता है तथा अन्य निर्दोष श्रमणों या श्रावकों को दोष लगाता है; सम्यग्दर्शनज्ञान से रहित वह श्रमण तिर्यच योनि वाला है, पशु है, अज्ञानी है, श्रमण नहीं है।

७६. अष्टपाहुड़ : सूत्रपाहुड़, गाथा १८  
८०. अष्टपाहुड़ : लिंगपाहुड़, गाथा १७  
७९. अष्टपाहुड़ : लिंगपाहुड़, गाथा ५

( ८१ )

पव्वज्जहीणगहिणं णेहं सीसम्मि बट्टदे बहुसो ।  
आयारविणयहीणो तिरिक्खजोणी ण सो समणो ॥  
श्रावकों में शिष्यगण में नेह रखते श्रमण जो ।  
हीन विनयाचार से वे श्रमण नहिं तिर्यच हैं ॥

जो भेषधारी दीक्षा रहित गृहस्थों और शिष्यों में बहुत स्नेह रखता है और मुनि के योग्य आचरण तथा विनय से विहीन होता है; वह श्रमण नहीं, पशु है, अज्ञानी है । अतः न तो गृहस्थों में स्नेह रखना चाहिए और न दीक्षित शिष्यवर्ग में ही ।

( ८२ )

दंसणणाणचरित्ते महिलावगगम्मि देदि वीसट्टो ।  
पास्त्थ वि हु णियट्टो भावविणट्टो ण सो समणो ॥  
पाश्वस्थ से भी हीन जो विश्वस्त महिला वर्ग में ।  
रत ज्ञान दर्शन चरण दें वे नहीं पथ अपवर्ग में ॥

जो साधु वेष धारण करके महिलाओं में विश्वास उत्पन्न करके उन्हें दर्शन-ज्ञान-चारित्र देता है, उन्हें पढ़ाता है, दीक्षा देता है, प्रवृत्ति सिखाता है - इसप्रकार उनमें प्रवर्तता है; वह तो पाश्वस्थ से भी निकृष्ट है, प्रकट भाव से विनष्ट है, श्रमण नहीं है ।

( ८३ )

धम्मेण होइ लिंगं ण लिंगमेत्तेण धम्मसंपत्ती ।  
जाणेहि भावधम्मं किं ते लिंगेण कायब्बो ॥  
धर्म से हो लिंग केवल लिंग से न धर्म हो ।  
समभाव को पहिचानिये द्रवलिंग से क्या कार्य हो? ॥

धर्मसहित तो लिंग होता है, परन्तु लिंगमात्र से धर्म की प्राप्ति नहीं होती है । इसलिए हे भव्यजीव ! तू भावरूप धर्म को जान, केवल लिंग से तेरा क्या कार्य सिद्ध होता है? तात्पर्य यह है कि अंतरंग निर्मल परिणामों सहित लिंग धारण करने से ही धर्म की प्राप्ति होती है ।

८१. अष्टपाहुड़ : लिंगपाहुड़, गाथा २      ८२. अष्टपाहुड़ : लिंगपाहुड़, गाथा १८  
८३. अष्टपाहुड़ : लिंगपाहुड़, गाथा २०

( ८४ )

रत्तो बन्धदि कम्मं मुच्चदि जीवो विरागसंपत्तो ।  
एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥  
विरक्त शिवरमणी वरें अनुरक्त बाँधे कर्म को ।  
जिनदेव का उपदेश यह मत कर्म में अनुरक्त हो ॥

रागी जीव कर्म बाँधता है और वैराग्य-सम्पन्न जीव कर्मों से छूटता है - ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है; अतः हे भव्यजीवो ! शुभाशुभ कर्मों में राग मत करो ।

( ८५ )

परमट्टबाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छंति ।  
संसारगमणहेदुं पि मोक्खहेदुं अजाणंता ॥  
परमार्थ से हैं बाह्य वे जो मोक्षमग नहीं जानते ।  
अज्ञान से भवगमन-कारण पुण्य को हैं चाहते ॥

जो जीव वीतरागभाव रूप मोक्षमार्ग को नहीं जानते हैं तथा संसार-परिभ्रमण का हेतु होने पर भी अज्ञान से पुण्य को मोक्षमार्ग मानकर चाहते हैं, वे जीव परमार्थ से बाहर हैं । तात्पर्य यह है कि उन्हें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी ।

( ८६ )

कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुसीलं ।  
कह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥  
सुशील है शुभकर्म और अशुभ करम कुशील है ।  
संसार के हैं हेतु वे कैसे कहें कि सुशील हैं? ॥

अज्ञानीजनों को सम्बोधित करते हुए आचार्य कहते हैं कि तुम ऐसा जानते हो कि शुभकर्म सुशील हैं और अशुभकर्म कुशील है, पर जो शुभाशुभ कर्म संसार में प्रवेश करते हैं, उनमें से कोई भी कर्म सुशील कैसे हो सकता है? तात्पर्य यह है कि शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म कुशील ही हैं, कोई भी कर्म सुशील नहीं होता ।

८४. समयसार, गाथा १५०  
८६. समयसार, गाथा १४५

८५. समयसार, गाथा १५४

( ८७ )

सोवण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं ।  
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥  
ज्यों लोह बेड़ी बाँधती त्यों स्वर्ण की भी बाँधती ।  
इस भाँति ही शुभ-अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बाँधती ॥

जिस प्रकार लोहे की बेड़ी पुरुष को बाँधती है, उसीप्रकार सोने की बेड़ी भी बाँधती ही है। इसीप्रकार जैसे अशुभकर्म (पाप) जीव को बाँधता है, वैसे ही शुभकर्म (पुण्य) भी जीव को बाँधता ही है। बंधन में डालने की अपेक्षा पुण्य-पाप दोनों कर्म समान ही हैं।

( ८८ )

तम्हा दु कुसीलेहि य रागं मा कुणह मा व संसर्गं ।  
साहीणो हि विणासो कुसीलसंसग्गरायेण ॥  
दुःशील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो ।  
दुःशील से संसर्ग एवं राग को तुम मत करो ॥

सचेत करते हुए आचार्य कहते हैं कि पुण्य-पाप इन दोनों कुशीलों के साथ राग मत करो, संसर्ग भी मत करो; क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग और राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है।

( ८९ )

ण हि मण्णदि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणं ।  
हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंछण्णो ॥  
पुण्य-पाप में अन्तर नहीं है - जो न माने बात ये ।  
संसार-सागर में भ्रमे मद-मोह से आच्छन्न वे ॥

इसप्रकार जो व्यक्ति 'पुण्य और पाप में कोई अन्तर नहीं है' - ऐसा नहीं मानता है अर्थात् उन्हें समानरूप से हेय नहीं मानता है, वह मोह से आच्छन्न प्राणी अपार घोर संसार में अनन्तकाल तक परिभ्रमण करता है।

८७. समयसार, गाथा १४६

८८. समयसार, गाथा १४७

८९. प्रवचनसार, गाथा ७७

( ९० )

सपरं बाधासहिं विच्छिणं बंधकारणं विसमं ।  
जं इन्दिएहिं लद्धं तं सोकखं दुक्खमेव तहा ॥  
इन्द्रियसुख सुख नहीं दुख है विषम बाधा सहित है।  
है बंध का कारण दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है ॥

इन्द्रियों से भोगा जाने वाला सुख पराधीन है, बाधासहित है, विच्छिन्न है, बंध का कारण है, विषम है; अतः उसे दुःख ही जानो। तात्पर्य यह है कि पुण्योदय से प्राप्त होने वाला सुख, दुःख ही है।

( ९१ )

सुहअसुहवयणरयणं रायादीभाववारणं किच्चा ।  
अप्पाणं जो झायदि तस्स दु णियमं हवे णियमा ॥  
शुभ-अशुभ रचना वचन वा रागादिभाव निवारिके ।  
जो करें आत्म ध्यान नर उनके नियम से नियम है ॥

शुभाशुभ रचना और रागादिभावों का निवारण करके जो आत्मा अपने आत्मा को ध्याता है, उसे नियम से नियम होता है। तात्पर्य यह है कि शुभाशुभभाव का अभाव कर अपने आत्मा का ध्यान करना ही धर्म है, नियम है।

( ९२ )

णियमेण य जं कज्जं तं णियमं णाणदंसणचरितं ।  
विवरीयपरिहरत्थं भणिदं खलु सारमिदि वयणं ॥  
सद्-ज्ञान-दर्शन-चरित ही है 'नियम' जानो नियम से ।  
विपरीत का परिहार होता 'सार' इस शुभ वचन से ॥

नियम से करने योग्य जो कार्य हो, उसे नियम कहते हैं। आत्महित की दृष्टि से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ही करने योग्य कार्य हैं; अतः वे ही नियम हैं। मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र की निवृत्ति के लिए 'नियम' के साथ 'सार' शब्द जोड़ा गया है।

अतः सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही नियमसार है।

९०. प्रवचनसार, गाथा ७६

९१. नियमसार, गाथा १२०

९२. नियमसार, गाथा ३

( ९३ )

मगो मगफलं ति य दुविहं जिणसासणे समक्खादं।  
मगो मोक्खउवाओ तस्स फलं होइ णिव्वाणं ॥  
जैन शासन में कहा है मार्ग एवं मार्गफल ।  
है मार्ग मोक्ष-उपाय एवं मोक्ष ही है मार्गफल ॥

जिनशासन में मार्ग और मार्गफल - ऐसे दो प्रकार कहे गये हैं । उनमें मोक्ष के उपाय को मार्ग कहते हैं और उसका फल निर्वाण (मोक्ष) है । तात्पर्य यह है कि सम्यगदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चूचारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है । तथा इनकी पूर्णता से जो अनन्तसुख, अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन एवं अनन्तवीर्य तथा अव्याबाध आदि गुण प्रगट होते हैं; वही मोक्ष है ।

( ९४ )

णाणाजीवा णाणाकम्मं णाणाविहं हवे लद्धी ।  
तम्हा वयणविवादं सगपरसमएहिं वज्जिज्जो ॥  
है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नानाविधि कही ।  
अतएव वर्जित वाद है निज-पर समय के साथ भी ॥

जीव नाना प्रकार के हैं, कर्म नाना प्रकार के हैं और लब्धियाँ भी नाना प्रकार की हैं । अतः स्वमत और परमतवालों के साथ वचनविवाद उचित नहीं है, निषेध योग्य है । किसी से वाद-विवाद करना आत्मार्थी का काम नहीं है ।

( ९५ )

लद्धूणं णिहि एकको तस्स फलं अणुहवेइ सुजणत्ते ।  
तह णाणी णाणणिहिं भुंजेइ चइत्तु परततिं ॥  
ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप रह जन भोगते ।  
त्यों ज्ञानिजन भी ज्ञाननिधि परसंग तज के भोगते ॥

जिसप्रकार कोई व्यक्ति निधि को पाकर अपने वतन में गुपरूप से रहकर उसके फल को भोगता है, उसीप्रकार ज्ञानी भी जगतजनों से दूर रहकर - गुप रहकर ज्ञाननिधि को भोगते हैं ।

१३. नियमसार, गाथा २

१४. नियमसार, गाथा १५६

१५. नियमसार, गाथा १५७

( ९६ )

ईसाभावेण पुणो केर्द णिंदति सुन्दरं मगं ।  
तेसिं वयणं सोच्चाऽभत्ति मा कुणह जिणमगे ॥  
यदि कोई ईर्ष्याभाव से निन्दा करे जिनमार्ग की ।  
छोड़ो न भक्ती वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की ॥

यदि कोई ईर्ष्याभाव से इस सुन्दर मार्ग की निन्दा करें तो उनके वचनों को सुनकर हे भव्यों ! इस सुन्दर जिनमार्ग में अभक्ति मत करना ।

इस सच्चे मार्ग में अभक्ति - अश्रद्धा करने का फल अनंत संसार है; अतः किसी के कहने मात्र से इस सुन्दर मार्ग को त्यागना बुद्धिमानी नहीं है ।

( ९७ )

मोक्खपहे अप्पाणं ठविऊण य कुणदि णिव्वुदी भत्ती ।  
तेण दु जीवो पावइ असहायगुणं णियप्पाणं ॥  
जो थाप निज को मुक्तिपथ भक्ती निवृत्ति की करें ।  
वे जीव निज असहाय गुण सम्पन्न आत्म को वरें ॥

मोक्षपथ में अपने आत्मा को अच्छी तरह स्थापित करके जो व्यक्ति निवृत्ति-भक्ति करता है, निर्वाण-भक्ति करता है, निज भगवान आत्मा की भक्ति करता है, निज भगवान आत्मा में ही अपनापन स्थापित करता है, उसे ही अपना जानता-मानता है, उसका ही ध्यान करता है; वह निश्चय से असहाय गुणवाले निजात्मा को प्राप्त करता है ।

( ९८ )

मोक्खंगयपुरिसाणं गुणभेदं जाणिऊण तेसिं पि ।  
जो कुणदि परमभत्ति ववहारणयेण परिकहियं ॥  
मुक्तिगत नरश्रेष्ठ की भक्ती करें गुणभेद से ।  
वह परमभक्ती कही है जिनसूत्र में व्यवहार से ॥

मोक्ष में गये हुए पुरुषों के गुणभेद जानकर उनकी परम भक्ति करना व्यवहारनय से भक्ति कहलाती है । मुक्ति को प्राप्त महापुरुषों का - भगवन्तों का गुणानुवाद ही व्यवहार भक्ति है ।

१६. नियमसार, गाथा १५६

१७. नियमसार, गाथा १३६

१८. नियमसार, गाथा १३५

( ९९ )

जो जाणदि अरहंतं दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं ।

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्म लयं ॥

द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को ।

वे जानते निज आतमा दृग्मोह उनका नाश हो ॥

जो अरहंत भगवान को द्रव्यरूप से, गुणरूप से एवं पर्यायरूप से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि मोह के नाश का उपाय अपने आत्मा को जानना-पहिचानना है और अपना आत्मा अरहंत भगवान के आत्मा के समान है; अतः द्रव्य-गुण-पर्याय से अरहंत भगवान का स्वरूप जानना मोह के नाश का उपाय है।

( १०० )

सब्वे वि य अरहंता तेण विधाणेण खविदकम्मंसा ।

किच्चा तथोवदेसं णिव्वादा ते णमो तेसि ॥

सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने जिस विधी ।

सबको बताई वही विधि हो नमन उनको सब विधी ॥

सभी अरहंत भगवान इसी विधि से कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और सभी ने इसीप्रकार मोक्षमार्ग का उपदेश दिया है, उन सभी अरहंतों को मेरा नमस्कार हो ।

( १०१ )

सुद्धस्स य सामणं भणियं सुद्धस्स दंसणं णाणं ।

सुद्धस्स य णिव्वाणं सो च्छ्य सिद्धो णमो तस्स ॥

है ज्ञान दर्शन शुद्धता निज शुद्धता श्रामण्य है ।

हो शुद्ध को निर्वाण शत-शत बार उनको नमन है ॥

शुद्ध को ही श्रामण्य कहा है, शुद्ध को ही दर्शन-ज्ञान कहा है और शुद्ध को ही निर्वाण होता है। तात्पर्य यह है कि शुद्धोपयोगी श्रमण मुक्ति को प्राप्त करता है। मुक्त जीव ही सिद्ध कहलाते हैं। अतः सभी सिद्धों को मेरा बारंबार नमस्कार हो ।